



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-27012025-260496
CG-DL-E-27012025-260496

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 413]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जनवरी 23, 2025/माघ 3, 1946

No. 413]

NEW DELHI, THURSDAY, JANUARY 23, 2025/MAGHA 3, 1946

रेल मंत्रालय

[उत्तर रेलवे (निर्माण संगठन)]

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 जनवरी, 2025

का.आ. 417(अ).—भारत सरकार, रेलवे अधिनियम, 1989 (1989 का 24), जिसे रेलवे (संशोधन) अधिनियम, 2008 द्वारा संशोधित किया गया है, की धारा 20A द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उत्तर प्रदेश राज्य के जौनपुर जिले में विशेष रेलवे परियोजना “मुफ्तीगंज (एनईआर) जौनपुर-महगावाँ बाईपास (जौनपुर जंक्शन) 1.5 किमी को जोड़ने वाली कॉर्ड लाइन” के निष्पादन, रखरखाव, प्रबंधन और संचालन के लिए निम्नलिखित अनुसूची में निर्दिष्ट भूमि को सार्वजनिक प्रयोजन के लिए अर्जित करने के अपने इरादे की घोषणा करता है।

कोई भी व्यक्ति जो उक्त भूमि में रुचि रखता है, वह इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से 30 दिनों के भीतर, रेलवे अधिनियम, 1989 की धारा 20A की उप-धारा (1) के अनुसार, उक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के अधिग्रहण के संबंध में आपत्ति दर्ज कर सकता है।

प्रत्येक आपत्ति को सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् विशेष भूमि अधिग्रहण अधिकारी, फूलपुर तहसील, जिला प्रयागराज, उत्तर प्रदेश के पास लिखित रूप में प्रस्तुत किया जाएगा, और उसमें आपत्ति के आधार और आपत्तिकर्ता की भूमि में रुचि का उल्लेख किया जाएगा। सक्षम प्राधिकारी आपत्तिकर्ता को व्यक्तिगत रूप से या कानूनी प्रतिनिधि के माध्यम से सुने जाने का अवसर देगा, और सभी आपत्तियों को सुनने और आवश्यक समझे जाने पर, कोई अतिरिक्त जांच करने के बाद, आदेश द्वारा, या तो आपत्तियों को स्वीकृत या अस्वीकृत कर सकता है।

रेलवे अधिनियम, 1989 की धारा 20A की उप-धारा (1) के तहत सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई भी आदेश अंतिम होगा।

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के संबंध में भूमि योजनाएँ और अन्य विवरण रुचि रखने वाले व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण के लिए सक्षम प्राधिकारी के कार्यालय में उपलब्ध हैं।

अनुसूची

उत्तर प्रदेश राज्य के प्रयागराज जिले में विशेष रेलवे परियोजना "मुफ्तीगंज (एनईआर) जौनपुर-महगावाँ बाईपास (जौनपुर जंक्शन) 1.5 किमी को जोड़ने वाली कौर्ड लाइन" के लिए जौनपुर जिले के अंदर संरचना सहित या उसके बिना आने वाली भूमि का संक्षिप्त विवरण

क्र.सं.	जिला का नाम	तहसील का नाम	गांव का नाम	सर्वे/खसरा संख्या	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
1	जौनपुर	जौनपुर	शाहदौदपुर		

1				987	0.2488
2				988	0.0899
3				989	0.079
4				958	0.0255
5				959	0.0299
6				957	0.0243
7				952	0.0268
8				1000	0.0763
9				1001	0.2986
10				991	0.0033
11				992	0.0498
12				990	0.1094
13				1003	0.0305
14				993	0.015
15				954	0.0348
16				939	0.2002
17				946	0.071
18				947	0.0203
19				955	0.3618
20				945	0.0001
21				948	0.1168
22				938	0.0328
23				907	0.0193

24				906	0.008
25				859	0.0042
26				861	0.0043
27				860	0.0005
					1.9812

2	जौनपुर	जौनपुर	पुरुषोत्तमपुर	सर्वे/खसरा संख्या	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
1				15	0.0293
2				12	0.2819
3				16	0.012
4				19	0.0001
5				20	0.0005
6				21	0.0018
7				22	0.0116
8				80	0.0038
9				77	0.0217
10				39	0.0148
11				24	0.0087
12				23	0.0762
13				26	0.1161
14				37	0.0209
15				35	0.0255
16				38	0.158
17				28	0.0073
18				36	0.1054
19				46	0.1811
20				45	0.1932
21				57	0.0507
22				54	0.0873
23				55	0.097
24				56	0.097
25				64	0.0071
26				72	0.1313
27				102	0.0207
28				74	0.001
29				73	0.0634
30				79	0.006
31				78	0.008

32				53	0.0081
33				116	0.063
34				103	0.051
35				158	1.3812
36				104	0.0992
37				42	0.0099
38				41	0.0082
39				29	0.0085
40				27	0.0829
41				25	0.0844
				कुल	3.6358

[फा. सं. 190-W/Land/JNU & SHG]

श्याम सिंह, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी / निर्माण-द्वितीय

MINISTRY OF RAILWAYS
[Northern Railways (Construction Organization)]
NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd January, 2025

S.O. 417(E).—The Central Government, in exercise of the powers conferred by Section 20A (1) of the Railways Act, 1989 (24 of 1989), as amended by the Railways (Amendment) Act, 2008, hereby declares its intention to acquire the land specified in the Schedule annexed hereto for the public purpose, namely for the execution, maintenance, management, and operation of the special railway project, **“Chord Line Connecting MFJ (NER)-JNU-MGWN Bypassing JNU (Jaunpur Jn.) 1.5 Km”** in the village Purshottampur & shdaudpur of district Jaunpur in the state of UP.)

Any person interested in the said land may, within 30 days from the date of publication of this notification, object to the acquisition of the land for the purposes mentioned above, as provided under sub-section (1) of Section 20A of the Railways Act, 1989.

Every objection shall be made to the competent authority, namely the Special Land Acquisition Officer, varanasi. District varanasi, Uttar Pradesh, in writing, and shall state the grounds of objection and the interest of the objector in the land. The competent authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner, and May, after hearing all such objections and after making such further inquiry, if any, as it thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the competent authority under sub-section (1) of Section 20A of the Railways Act, 1989 shall be final.

The land plans and other details of the land covered under this notification are available in the office of the competent authority for inspection by the interested persons.

SCHEDULE

A brief description of the land in Prayagraj district of Uttar Pradesh state required for the special railway project, **“Chord Line Connecting MFJ (NER)-JNU-MGWN Bypassing JNU (Jaunpur Jn.) 1.5 Km”** including or excluding structures:

Sr. No.	Name of District	Name of Tehsil	Name of Village	Survey/Khasra No.	Area (in Hectares)
1	Jaunpur	Jaunpur sadar	Shahdaudpur urf kakorgahna		
1				987	0.2488

2				988	0.0899
3				989	0.079
4				958	0.0255
5				959	0.0299
6				957	0.0243
7				952	0.0268
8				1000	0.0763
9				1001	0.2986
10				991	0.0033
11				992	0.0498
12				990	0.1094
13				1003	0.0305
14				993	0.015
15				954	0.0348
16				939	0.2002
17				946	0.071
18				947	0.0203
19				955	0.3618
20				945	0.0001
21				948	0.1168
22				938	0.0328
23				907	0.0193
24				906	0.008
25				859	0.0042
26				861	0.0043
27				860	0.0005
				TOTAL	1.9812

Sr. No.	Name of District	Name of Tehsil	Name of Village	Survey/Khasra No.	Area (in Hectares)
2	Jaunpur	Jaunpur sadar	Purshottampur urf Pandeypur		
1				15	0.0293
2				12	0.2819
3				16	0.012
4				19	0.0001
5				20	0.0005
6				21	0.0018
7				22	0.0116
8				80	0.0038
9				77	0.0217
10				39	0.0148
11				24	0.0087
12				23	0.0762
13				26	0.1161
14				37	0.0209
15				35	0.0255
16				38	0.158
17				28	0.0073

18				36	0.1054
19				46	0.1811
20				45	0.1932
21				57	0.0507
22				54	0.0873
23				55	0.097
24				56	0.097
25				64	0.0071
26				72	0.1313
27				102	0.0207
28				74	0.001
29				73	0.0634
30				79	0.006
31				78	0.008
32				53	0.0081
33				116	0.063
34				103	0.051
35				158	1.3812
36				104	0.0992
37				42	0.0099
38				41	0.0082
39				29	0.0085
40				27	0.0829
41				25	0.0844
				TOTAL	3.6358

[F. No. 190-W/Land/JNU & SHG]

SHYAM SINGH, Chief Administrative Officer/Const-II